CKYC No.
सीकेवाईसी संख्या



Milkar life aage hadhaein

Form for Assignment / निर्धारण के लिए फ़ॉर्म

Coloured Photograph of Assignor/ Assignee (as सौंपने वाले (असाइनर)/ वारिस (असाइनी) की रंगीन फोटो (लागू करने योग्य)

Documents to be collected in case assignee is an individual अगर समनुदेशिती एक व्यक्ति है तो एकत्रित किए जाने वाले दस्तावेज़

- Original policy document
- मल पॉलिसी दस्तावेज
- Any one coloured copy of officially valid document (for ID and address proof), which includes Passport, driving license, Election card (Voter id card), Job card issued by NREGA, Letter issued under National Population Register containing details of name and address with photograph
 - (पहचान और पते के प्रमाण के लिए) आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज की कोई भी एक रंगीन कॉपी, जिसमें शामिल हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन कार्ड (वोटर आईडी कार्ड), नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी किया गया पत्र. जिसमें नाम और पते के विवरण फोटो सहित हो
- Copy of PAN card or Form 60 (all cases)
 - पैन कार्ड की प्रतिलिपि या फार्म 60 (सभी मामलों में)
- One recent color photograph
- एक नया रंगीन फोटोग्राफ
- Any one coloured copy of Income proof of the assignee (If annual premium is greater than INR 99,999/-), which includes Income Tax Assessment orders/Income Tax Returns, Employer's Certificate, Form -16 A, Form -16, Recent Pay slips, Bank Cash-flows Statements, Pass-Book, Bank Assessment Form signed by Bank Authorized signatory/SP
 - वारिस (असाइनी) के आय प्रमाण की कोई एक रंगीन कॉपी (यदि वार्षिक प्रीमियम रुपये 99,999/- से अधिक है), जिसमें शामिल हैं आयकर निर्धारण आदेश/आयकर रिटर्न, नियोक्ता का प्रमाण पत्र, फॉर्म -16 ए, फॉर्म-16, हालिया वेतन पूर्ची बैंक प्राधिकत हस्ताक्षरकर्ता/एसपी द्वारा हस्ताक्षरित बैंक कैश-फ्लो स्टेटमेंट पास-बक बैंक असेसमेंट फॉर्म
- In case of an individual third-party assignment is towards security to a loan availed, a "Promissory note" or "Loan agreement" if any, signed by both assignee and assignor has to be submitted as proof of consideration (In prescribed format of PNB MetLife)
 - व्यक्ति का तृतीय-पक्ष निर्धारण, किसी प्राप्त किए गए ऋण हेतु प्रतिभूति के लिए होने की स्थिति में एक "वचनबद्धता पत्र" या "ऋण अनुबंध" यदि कोई हो, जिस पर समनुदेशिती और समनुदेशक दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, विचारण साक्ष्य के रूप में जमा किया जाएगा (पीएनबी मेटलाइफ द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में)
- New ACH/ Direct debit request from the assignee in case premium is being paid by the assignee (Applicable only in case of absolute assignment and assignee wants to pay future premium through Direct Debit)
 - जब प्रीमियम का भुगतान हस्तांतरिती द्वारा किया जा रहा हो, तब हस्तांतरिती द्वारा नई एसीएच (ACH)/सीधे जमा (डायरेक्ट डेबिट) का अनुरोध (केवल उस मामले में जब पूर्ण अभिहस्तांकन और हस्तांतरिती भविष्य के प्रीमियम का भुगतान डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से करना चाहता है)
- If Proof of possession of Aadhaar is submitted as ID and address proof, touch points to ensure that first 8 digits are properly masked and only last 4 digits are visible यदि आईडी और पता के रूप में आधार होने का प्रमाण सौंपा जाता है, तो टच पॉइंट यह सुनिश्चित करता है कि पहले 8 डिजिट ठीक तरीके से मास्क किए हुए हों और केवल अंतिम 4 डिजिट दिखाई देते हों।

Note:-

क-पासपोर्ट नंबर

☐ E- National Population Register letter _

ङ- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र

ध्यान दें:-

- Fields marked with "*" are mandatory to be filled if the request is submitted for individual assignment/ re-assignment to an individual. If any of the fields are not filled the request will not be accepted
 - यदि अनुरोध किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत असाइनमेंट/ रि-असाइनमेंट के लिए सबमिट किया जाता है, तो "*" से चिह्नित फ़ील्ड को भरना अनिवार्य है। यदि कोई भी फ़ील्ड भरा नहीं गया है तो अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा
- Please refer PNB MetLife India Insurance Company Limited (PMLI) website or contact your nearest branch or call at our Call center as mentioned below herein for necessary documentation required to be submitted for other types of assignment अन्य प्रकार के निर्धारण के लिए दाखिल किए जाने हेत आवश्यक दस्तावेजों के लिए कपया पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पीएमएलआई) की वेबसाइट पर जाएं या अपनी निकटतम शाखा में संपर्क

करें या हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करें, जै	सा नीचे उल्लेख किया गया है।	(.,.,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Assignor Details: असाइनर (सौंपने वाले) का विवरण:			
*Policy Number: *पॉलिसी संख्या:		*Request submission Da *अनुरोध जमा करने की तिर्	
*Name (Mr./Mrs./Ms./Dr./Master/Other): (Same as ID Proof)	F I R S T	M I D D L E	LAST
*नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ./एस्टर/अन्य):			
(जैसा पहचान प्रमाण में हो)			
*Maiden Name (Ms./Dr./Other): (Applicable only for females)	RST	MIDDDLE	LAST
*प्रथम नाम (सुश्री/डॉ./अन्य):			
(केवल महिलाओं के लिए लाग्)			
*Father's Name (Ms./Dr./Other):			
*पिता का नाम (श्री/डॉ./अन्य):	RST	M I D D L E	
*Mother's Name (Ms./Mrs./Dr./Other):	FIRST	MIDDDLE	
*माता का नाम (सुश्री/श्रीमती/डॉ./अन्य):			
*Spouse Name (Ms./Mrs./Dr./Other):	FIRST	MIDDLE	LAST
*जीवनसाथी का नाम (सुश्री/श्रीमती/डॉ./अन्य)			
*Proof of identity and address (Please mention the		ed)	
*पहचान और पते का प्रमाण (कृपया जमा किए गए प्रमा	ण की दस्तावेज संख्या का उल्लेख करें)		
☐ A-Passport Number	☐ B-Voter ID card	☐ C-Driving License	□ D-NREGA Job Card
क-पासपोर्ट नंबर	ख-वोटर आईडी कार्ड	ग-ड्राइर्विग लाइसेंस	घ-नरेगा जॉब कार्ड
☐ E- National Population Register letter		☐ F-Proof of possession of Aadhaar^	
ङ- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र		F-आधार होने का प्रमाण^	
LANDMARK		C T Y / T	O W N / V I L L A G E
D I S T R I C T F	PIN/POSTC	O D E S T A T E /	UTCODE
*Current address details			
*वर्तमान पते का विवरण			
☐ Same as mentioned above (In such cases addr	ress details as below need not to be provide	ed)	
जैसा कि ऊपर बताया गया है (ऐसे मामलों में नीचे वि			
☐ A-Passport Number	☐ B-Voter ID card	☐ C-Driving License	□ D-NREGA Job Card

ग-डाइविंग लाइसेंस

F-आधार होने का प्रमाण^

☐ F-Proof of possession of Aadhaar^

ख-वोटर आईडी कार्ड __

घ-नरेगा जॉब कार्ड

							С	ı	Т	Υ	/	Т	0	W	N		V			L	A	G	Е
DISTRICTPI	N / P	0 8	T C	0	DE		S	Т	Α	Т	Е	/	U	Т	С	0	D	E					
^Proof of possession of Aadhaar includes Aadhaar Card,	Aadhaar letter,	ــــــاــــــــــــــــــــــــــــــ	n-Aadl	naar ar	ıd maske	d Aadh	naar] [
^आधार होने के प्रमाण में आधार कार्ड, आधार लेटर, ई-आधार, ष	एम-आधार और मा	स्क्ड आधार १	ामिल ह	हैं।																			
*Resident Status:		□ PIO	ाईओ					Resid निवास			try												
**Nationality:		☐ Fore		ational	l				ा। परा														
*#राष्ट्रीयता: भारतीय		विदे	शी नाग	रिक			1	एनआ	रआई														
"Non-Resident Indian/ Person of Indian Origin/ Fore mention country code before the number mentioned)	ign National cu	m FATCA/	CRS Q	uestio	nnaire is	requi	red to	be t	filled	l if N	ation	ality	is se	lecte	d oth	her th	an In	dian	Cont	tact E	Detail	s: (Pl	ease
#अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति / विदेशी राष्ट्रीय	सह FATCA/ CR	kS प्रश्नावली व	को भरन	ा आवश	यक है या	दे राष्ट्री	यता के	ो भार	तीय	के अल	गवा ः	अन्य व	को चुन	ा जात	ग है।	संपर्क	विवरण	ा: (कृष	ग्या ब	ताए ग	गए नंब	ार से	पहले
देश कोड का उल्लेख करें) Tel. (off)	Tol (Ro	es)								*Mc	hila												
दूरभाष (कार्यालय)		. _° , (निवास)																					
*Email id																							
*ईमेल आईडी																							
Occupation: व्यवसायः		e and nature और कार्य की '																					
Name of the Organization:			ત્રધૂમતા.																				
कंपनी का नामः																							
*Date of Birth:	v]	*Gender:	□м	- Male		F - Fe	male			T - T	ransg	gende	r										
*जन्मतिथिः	1	*लिंगः		न - पुरुष	τ	एफ -	महिला	Г		टी -	ट्रांसजें	ांडर											
*PAN No/ Form 60:					Proof																		
*पैन नं./फ़ॉर्म 60:			*3	ाय का	प्रमाण																		
(*पैन नं./फ़ॉर्म 60 प्रदान करना अनिवार्य है)																							
*Bank Details:																							
*बैंक विवरण:																							
Account Holder Name: खाताधारक का नाम:							Name । प्रेंक का																
Branch Name:							ype o																
शाखा का नाम:						_	बाते का 		र:														_
						1	FSC Co	oae:															
Account No: वाता क्रमांक:						_	FSC को	ोड:															
खाता क्रमांक:	fore choosing the	he option):					FSC को	ोड:						•	Į.								
. <u> </u>		he option):				<u> </u>	FSC को	ोड:					•										
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए □ Absolute Assignment □ C	<u>नोट पढ़ें):</u> onditional Assi _l					<u> </u>	FSC को	ोड:					•										
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए □ Absolute Assignment □ C पूर्ण निर्धारण स	नोट प <u>ढ़ें):</u> onditional Assi _ễ शर्त निर्धारण	gnment		· (DA)	D Ma-Al if				/5														
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए □ Absolute Assignment □ C	<u>नोट पढ़ें):</u> onditional Assi शर्त निर्धारण m lender i.e. Ban	gnment uk/Financial I				e or an	y othe	er Pers									_			lende	er.		
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए □ Absolute Assignment □ C पूर्ण निर्धारण स Note: If the policy is being assigned due to loan taken from नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल	<u>नोट पढ़ें):</u> onditional Assi शर्त निर्धारण m lender i.e. Ban	gnment uk/Financial I				e or an	y othe	er Pers									_			lende	er.		
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए □ Absolute Assignment □ C पूर्ण निर्धारण स Note: If the policy is being assigned due to loan taken from	<u>नोट पढ़ें):</u> onditional Assi शर्त निर्धारण m lender i.e. Ban	gnment uk/Financial I				e or an	y othe	er Pers									_			lende	er.		
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स Note: If the policy is being assigned due to loan taken from नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि बैंक/बित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल Reason for Assignment/Reassignment: असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण:	<mark>नोट पहें):</mark> onditional Assig शर्त निर्धारण m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection ^a	gnment ık/Financial । 1 व्यक्ति/संस्था			ए गए लोन □ Wa	e or an के कार	y othe ण पॉव्ि	er Pers लेसी र्ल	fl जा	रही है	इं, तो प	पॉलिस	नी शर्त		थ ऋष	गदाता Loan (को सौ	पी जा d by	एगी। custo	omer	er.		
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्रि निर्धारण स प्रण निर्धारण स Note: If the policy is being assigned due to loan taken from नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि वैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल Reason for Assignment/Reassignment: असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Financial needs/ Loan	<mark>नोट पहें):</mark> onditional Assig शर्त निर्मारण m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य pove & affection' म एवं वात्सल्य**	gnment ık/Financial । 1 व्यक्ति/संस्था	की ओर	से लिए	एगएलोन □ W; निः	e or an के कार aiver c योक्ता व	y othe ण पॉव्ि	er Pers लेसी र्ल	fl जा	रही है	इं, तो प	पॉलिस	नी शर्त		थ ऋष	गदाता	को सौ	पी जा d by	एगी। custo	omer	er.		
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चृनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्म Note: If the policy is being assigned due to loan taken from नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल Reason for Assignment/Reassignment: असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Financial needs/ Loan	नोट पहें): onditional Assig शर्त निर्धारण m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection' म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यिट	gnment ık/Financial । ा व्यक्ति/संस्था **	की ओर al need	से लिए ds/ Loa	एगएलोन □ Wa निः an is sele	e or an के कार aiver c थोक्ता ब	y othe ण पॉरि of Emp कर्मचार्र	er Pers नेसी र्ल bloyer ो शर्त	fl जा	रही है	इं, तो प	पॉलिस	नी शर्त		थ ऋष	गदाता Loan (को सौ	पी जा d by	एगी। custo	omer	er.		
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्र निर्धारण स	नोट पहें): onditional Assig शर्त निर्धारण m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection' म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यदि	gnment ık/Financial । ा व्यक्ति/संस्था **	की ओर al need	से लिए ds/ Loa	एगएलोन □ Wa निः an is sele	e or an के कार aiver c थोक्ता ब	y othe ण पॉरि of Emp कर्मचार्र	er Pers नेसी र्ल bloyer ो शर्त	fl जा	रही है	इं, तो प	पॉलिस	नी शर्त		थ ऋष	गदाता Loan (को सौ	पी जा d by	एगी। custo	omer	er.		
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bei निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्रिण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्रिण निर्धारण स Note: If the policy is being assigned due to loan taken froi नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल Reason for Assignment/Reassignment: Reason for Assignment/Reassignment: असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Loan Loan	नोट पहें): onditional Assig शर्त निर्धारण m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection' म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यदि	gnment ık/Financial । ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता	से लिए ds/ Loa एं/ऋण	ए गए लोन □ Wa निः an is sele चुना गया	e or an के कार बांver c पोक्ता ब cted) है तो भ	y othe ण पॉरि ——— of Emp कर्मचार परा जाग् _at	er Pers नेसी लं bloyer ो शर्त	fl जा r Emp की छू	रही है ploye ट	t, तो प	पॉलिस uॉलिस	नी शर्त	के सा	थ ऋ ^ए □ । ₹	गदाता Loan (ग्राहक	को सौ cleare द्वारा	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण			
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bei निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्र निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्र निर्धारण स	नोट पहें): onditional Assig शर्त निर्धारण m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection' म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यदि	gnment ık/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव , 20	की ओर al need श्यकता	से लिए ds/ Loa एं/ऋण	ए गए लोन □ Wa निः an is sele चुना गया	e or an के कार बांver c पोक्ता ब cted) है तो भ	y othe ण पॉिंत of Emp कर्मचार्र	er Pers नेसी लं bloyer ो शर्त	fl जा r Emp की छू	रही है ploye ट	t, तो प	पॉलिस uॉलिस	नी शर्त	के सा	थ ऋ ^ए □ । ₹	गदाता Loan (ग्राहक	को सौ cleare द्वारा	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण	ादित f	केया :	 गया।
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bei निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्रिण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्रिण निर्धारण स Note: If the policy is being assigned due to loan taken froi नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल Reason for Assignment/Reassignment: Reason for Assignment/Reassignment: असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Loan Loan	नोट पहें): onditional Assig शर्त निर्धारण m lender i.e. Ban ताइफ या कोई अन्य ove & affection* म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यि	gnment ik/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** d if Financi दे वित्तीय आव , 20	की ओर al need श्यकता	से लिए ds/ Loa एं/ऋण	ए गए लोन □ Wa निः an is sele चुना गया	e or an के कार बांver c पोक्ता ब cted) है तो भ	y othe ण पॉरि ——— of Emp कर्मचार परा जाग् _at	er Pers नेसी लं bloyer ो शर्त	fl जा r Emp की छू	रही है ploye ट	t, तो प	पॉलिस uॉलिस	नी शर्त	के सा	थ ऋ ^ए □ । ₹	गदाता Loan (ग्राहक	को सौ cleare द्वारा	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण			गया।
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bei निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्रिण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्रिण निर्धारण स	नोट पहें): onditional Assig शर्त निर्धारण m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection' म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यिव	gnment uk/Financial । व्यक्ति/संस्था ** दे वित्तीय आव , 20 , 21 nor	की ओर al need श्यकता) D	से लिए ds/ Loa एं/ऋण	ए गए लोन □ Wa निः चित्रा is sele चुना गया	e or an के कार घोफ्ता व cted) है तो भ	y othe ण पॉरि of Emp कर्मचार पारा जाग _at को	er Pers लेसी र्ल bloyer ो शर्त ए)	fl जा r Emp की छू	रही है ploye ट	t, तो प	पॉलिस uॉलिस	नी शर्त	के सा	थ ऋ ^ए □ । ₹	गदाता Loan (ग्राहक	को सौ cleare द्वारा	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण			 गया।
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चृनने से पहले कृपया नीचे दिए गए ए निर्धारण का प्रकार (विकल्प चृनने से पहले कृपया नीचे दिए गए ए पूर्ण निर्धारण स Note: If the policy is being assigned due to loan taken froi नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल Reason for Assignment/Reassignment: Reason for Assignment/Reassignment: असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Loan वित्तीय आवश्यकताएं/ऋण प्रेपे प्रेपे प्राधि प्रकार प्	नोट पहें): onditional Assignational Assignational Assignation m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection n एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यि e	gnment uk/Financial । ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव , 20 nor क n case condi	की ओर ————————————————————————————————————	से लिए dds/ Loa एं/ऋण	्ण ए लोन प्रि का is sele चुना गया	e or an के कार पोक्ता व cted) है तो भ	y othe ण पॉिंति of Emp कर्मचार परा जाप _at को modif	er Pers नेसी लं oloyer ो शर्त ए)	r Emp की छू	रही है	ee cor	पॉलिस nditic	नी शर्त Don	के सा	u ऋष	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		 केयाः	गया।
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए ए निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए ए पूर्ण निर्धारण स Note: If the policy is being assigned due to loan taken froi नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल Reason for Assignment/Reassignment: Reason for Assignment/Reassignment: असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Loan वित्तीय आवश्यकताएं/ऋण प्रेप प्रेप प्रिक्तिया आवश्यकताएं/ऋण प्रेप प्रकार परिण् Any other (provide details) कोई अन्य (विवरण प्रदान करें) Executed on this day of shift अन्य कियाण प्रतान करें। Assigne मिवप्य के प्रीमियम का भुगतान करना होगा: हस्तांतरि #Fresh Board Resolution is required signed by authori #निर्धारण की शर्त संशोधित किए जाने की स्थिति में प्राधिकृत हर **Such assignment is generally executed in favor of a	नोट पहें): onditional Assignational Assignational Assignation m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यि e	gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए dds/ Loa एं/ऋण ——— f assign as assign as assign as assign as as as as as as as as as as as as as	ए गए लोन	e or an के कार पोक्ता ब cted) है तो भ being	y othe ण पॉिंत of Emp कर्मचार पारा जाप _at को modif	er Pers नेसी लं गेशर्त ए)	r Emp की छू	रही है	e cor	पॉलिस nditic	नी शर्त Don	के सा	u ऋष	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		ो केया :	गया।
चाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (पीएनबी मेटल नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल स्थान (विक्रण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल स्थान सेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Reason for Assignment/Reassignment: असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Logarda स्थान/पीएनबी मेटल स्थाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: प्रि प्रधाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: प्रधाइन कित्या आवश्यकताएं/ऋण प्रधा विचारण राशि प्रधाइन करें	नोट पहें): onditional Assignational Assignational Assignation m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यि e	gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए dds/ Loa एं/ऋण ——— f assign as assign as assign as assign as as as as as as as as as as as as as	ए गए लोन	e or an के कार पोक्ता ब cted) है तो भ being	y othe ण पॉिंत of Emp कर्मचार पारा जाप _at को modif	er Pers नेसी लं गेशर्त ए)	r Emp की छू	रही है	e cor	पॉलिस nditic	नी शर्त Don	के सा	u ऋष	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		केया :	
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्था अठाधार Assignment पूर्ण निर्धारण स्था Note: If the policy is being assigned due to loan taken froi नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल Reason for Assignment/Reassignment: Reason for Assignment/Reassignment: असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Loan वित्तीय आवश्यकताएं/ऋण प्रेपे With Consideration Amount विचारण राशि Any other (provide details) कोई अन्य (विवरण प्रदान करें) Executed on this day of Assigne Assigne Assigne Fresh Board Resolution is required signed by authori #निर्धारण की शर्त संशोधित किए जाने की स्थिति में प्राधिकृत हर **Such assignment is generally executed in favor of a **ऐसा निर्धारण प्रायः रक्त संबंधी के पक्ष में किया जाता है जिसक	नोट पहें): onditional Assignational Assignational Assignation m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यि e	gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए dds/ Loa एं/ऋण ——— f assign as assign as assign as assign as as as as as as as as as as as as as	ए गए लोन	e or an के कार पोक्ता ब cted) है तो भ being	y othe ण पॉिंत of Emp कर्मचार पारा जाप _at को modif	er Pers नेसी लं गेशर्त ए)	r Emp की छू	रही है	e cor	पॉलिस nditic	नी शर्त Don	के सा	u ऋष	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण			गया।
चाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (पीएनबी मेटल नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल स्थान (विक्रण प्रदाता जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल स्थान सेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Reason for Assignment/Reassignment: असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: Logarda स्थान/पीएनबी मेटल स्थाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: प्रि प्रधाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का कारण: प्रधाइन कित्या आवश्यकताएं/ऋण प्रधा विचारण राशि प्रधाइन करें	नोट पहें): onditional Assignational Assignational Assignation m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यि e	gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए dds/ Loa एं/ऋण ——— f assign as assign as assign as assign as as as as as as as as as as as as as	ए गए लोन	e or an के कार पोक्ता ब cted) है तो भ being	y othe ण पॉिंत of Emp कर्मचार पारा जाप _at को modif	er Pers नेसी लं गेशर्त ए)	r Emp की छू	रही है	e cor	पॉलिस nditic	नी शर्त Don	के सा	u ऋष	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		केया :	 गया।
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bei निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स स्थान (विकल्प प्रदाता जैसे कि वैंक (वित्तीय संस्थान (पीएनवी मेटल नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि वैंक (वित्तीय संस्थान (पीएनवी मेटल सहका कारण स्थान नेट (पीण से कि वैंक (वित्तीय संस्थान (पीएनवी मेटल सहका कारण स्थान नेट (पीण स्थान नेट स्थान नेट (पीण स्थान नेट स्थान नेट स्थान नेट स्थान नेट स्थान नेट स्थान स्थान (पीएनवी मेटल प्रवान करें) Financial needs / Loan	नोट पहें): onditional Assignational Assignational Assignation m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection म एवं वात्सल्य** (to be fille के साथ (यि e	gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए dds/ Loa एं/ऋण ——— f assign as assign as assign as assign as as as as as as as as as as as as as	ए गए लोन	e or an के कार पोक्ता ब cted) है तो भ being	y othe ण पॉिंति of Emp f Emp fattart at at at father और बङ्ग	er Pers नेसी लं गेशर्त ए)	r Emp की छू	रही है	ee cor	पॉलिस nditic	नी शर्त Don	के सा	u ऋष	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		केया :	गया।
खाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bei निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थाप (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थाप निर्धारण स्थाप निर्धारण स्थाप निर्धारण स्थाप निर्धारण स्थाप निर्धारण प्रदाता जैसे कि वैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनवी मेटल स्थाप प्रदात के कारण: Financial needs/ Loan Log स्थाप प्रदात के कारण: Log स्थाप प्रदात के कारण: प्रि स्थाप प्रदात के कारण: प्रदात के कारण प्रदात के कारण प्रदात के स्थाप प्रदात के स्थाप प्रदात के स्थाप प्रदात के स्थाप (विवरण प्रदात के स्थाप प्रदात के स्थाप प्रदात के स्थाप प्रदात के स्थाप प्रदात के प्रवात करना होगा: हस्तातरि में मिथरण की शर्त संथोधित किए जाने की स्थिति में प्राधिकृत हर **Such assignment is generally executed in favor of a **ऐसा निर्धारण प्रायः रक्त संबंधी के पक्ष में किया जाता है जिसक स्थापन प्रदात संप्तान करना होगा का ता है जिसक स्थापन स्थापन प्रदात के संपत्त के पक्ष में किया जाता है जिसक स्थापन प्रदात संपत्त के पक्ष में किया जाता है जिसक स्थापन प्रदात संपत्त के का कियाप जाता है जिसक स्थापन प्रदात संपत्त के का कियापन का निर्धारण प्रायः रक्त संबंधी के पक्ष में किया जाता है जिसक स्थापन प्रदात संपत्त के का विवरण: *Name (Mr./Mrs./Ms./Dr./Master/Other):	नोट पहें): onditional Assignational Assignational Assignation m lender i.e. Ban ताइफ़ या कोई अन्य ove & affection¹ म एवं वात्सल्य**(to be fille के साथ (यिः e	gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए dds/ Loa एं/ऋण ——— f assign as assign as assign as assign as as as as as as as as as as as as as	ए गए लोन	e or an के कार aliver or cted) है तो भ being y the	y othe ण पॉिंति of Emp f Emp fattart at at at father और बङ्ग	er Pers त्रेसी लं bloyer ो शर्त ए)	r Emp की छू	रही है	ह, तो प	पॉलिस nditic	नी शर्त Don	के सा	u ऋष	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		केया :	
चाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bei निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्म स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्म Note: If the policy is being assigned due to loan taken froi नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि वैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनबी मेटल Reason for Assignment/Reassignment: Reason for Assignment/Reassignment: Reason for Assignment/Reassignment: With Consideration Amount वित्तीय आवश्यकताएं/ऋण प्रेप With Consideration Amount विचारण राशि	नोट पहें): onditional Assignational Assignational Assignation and the second state of the second state o	gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए ds/ Loa एं/ऋण व आव and inc	ए गए लोन Ware ware ware ware ware ware ware ware w	e or an के कार aliver or cted) है तो भ being y the	y othe ण पॉिंत of Emp nर्मचार at at ah modif	er Pers त्रेसी लं bloyer ो शर्त ए)	r Emp की छू	रही है	ह, तो प	पॉलिस nditic	ग्री शर्त	के सा	य ऋष्	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		केया :	गया।
चाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bei निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्म	नोट पहें): onditional Assignational Assignational Assignation and the second state of the second state o	gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए ds/ Loa एं/ऋण व आव and inc	ए गए लोन Ware ware ware ware ware ware ware ware w	e or an के कार योक्ता व cted) है तो भ being ru y the	y othe ण पॉिंत of Emp nर्मचार at at ah modif	er Pers लेसी ले शिoyer ो शर्त ए)	r Emp की छू	रही है	ह, तो प	पॉलिस nditic	ग्री शर्त	के सा	य ऋष्	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		केया :	गया।
चाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चृनने से पहले कृपया नीचे दिए गए ए निर्धारण का प्रकार (विकल्प चृनने से पहले कृपया नीचे दिए गए ए निर्धारण स	नोट पहें): onditional Assign (gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए ds/Loa एं/ऋण व आव and inc पिता,	ए गए लोन □ W: ि का is sele चुना गया Properties Properties	e or an a saiver c cted) being ly y the	y othe ण पॉिंति of Emp फर्मचार ारा जाग _at _को _ _ modif father और बड़े	er Pers त्रेसी ले bloyer ो शर्त ए)	r Emp की छू	रही है	ह, तो प	पॉलिस nditic	ती शर्त	के सा	थ ऋष्	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		केया :	गया।
चाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स्थान (पूर्ण निर्धारण से संस्थान (पीएनवी मेटल नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि वैंक (वित्तीय संस्थान (पीएनवी मेटल नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि वैंक (वित्तीय संस्थान (पीएनवी मेटल स्वक्डां का कारण: Reason for Assignment/Reassignment:	नोट पहें): onditional Assign (gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए ds/Loa एं/ऋण व आव and inc पिता,	ए गए लोन □ W: ि का is sele चुना गया Properties Properties	e or an के कार योक्ता व cted) है तो भ being ru y the	y othe ण पॉिंति of Emp फर्मचार ारा जाग _at _को _ _ modif father और बड़े	er Pers लेसी ले शिoyer ो शर्त ए)	r Emp की छू	रही है	ह, तो प	पॉलिस nditic	ती शर्त	के सा	थ ऋष्	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		केया :	गया।
चाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bei निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्रि निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए प्र निर्धारण स प्रण निर्धारण स स Note: If the policy is being assigned due to loan taken froi नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि वैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनवी मेटल स्वक्डा का प्रतास के से कि वैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनवी मेटल स्वकडा for Assignment/Reassignment: Reason for Assignment/Reassignment: #Reason for Assignment/Reassignment: #Reason for Assignment/Reassignment: ##Isian-dial needs/ Loan	नोट पहें): onditional Assign (gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	से लिए ds/Loa एं/ऋण व आव and inc पिता,	ण (प्रेमण लोन	e or an a saiver c cted) being ly y the	y othe ण पॉिंति of Emp फर्मचार ारा जाग _at _को _ _ modif father और बड़े	er Pers त्रेसी ले bloyer ो शर्त ए)	r Emp की छू	रही है	ह, तो प	पॉलिस nditic	ती शर्त	के सा	थ ऋष्	गदाता	को सौँ	पी जा d by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		केया :	गया।
चाता क्रमांक: Type of Assignment (Please read the below note, bet निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण का प्रकार (विकल्प चुनने से पहले कृपया नीचे दिए गए पूर्ण निर्धारण स पूर्ण निर्धारण स स Note: If the policy is being assigned due to loan taken fror नोट: यदि ऋण प्रदाता जैसे कि वैंक/वित्तीय संस्थान/पीएनवी मेटल स्वक्डा का कारण: Reason for Assignment/Reassignment:	नोट पहें): onditional Assign (gnment ak/Financial I ा व्यक्ति/संस्था ** ed if Financi दे वित्तीय आव	की ओर al need श्यकता))) tion of	t से लिए ds/ Loa ti/ऋण f assign व आव and inc पिता,	ण (प्रेमण लोन	e or an a silver c c cted) है तो भ	y othe ण पॉिंत of Emp nर्मचार at at को modif	er Pers नेसी ले शिक्ष ए)	r Emp की छू	रही है	ह, तो प	पॉलिस nditic	ती शर्त	के सा	□ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	गदाता	को सौँ	पी जा dd by बुकाया	एगी। custo r गया	omer ऋण		केया :	गया।

Assignee is (please tick one): वारिस (असाइनी) है (कृपया एक पर टिक □ Non-Regulated Institution/ NGO गैर-विनियमित संस्थान / एनजीओ / ट्रा	/ Trust ☐ Non-Profit organization		□ Regulated Institution (by RBI/ SEBI/ IRDAI/ Other) विनियमित संस्थान (आरबीआई/ सेबी/ इरडाई/ अन्य द्वारा) □ Others अन्य
	ase mention the document number of the p	proof submitted)	
*पहचान और पते का प्रमाण (कृपया प्रस्तुत	·	□ C Driving Licer	ise D-NREGA Job Card
	□ B-Voter ID card ख-वोटर आईडी कार्ड	च ट-ठारणाहु घटन ग-ड्राइविंग लाइ	ise 🗀 D-NACOA JOD Calu सेंस घ-नरेगा जॉब कार्ड
	tter		session of Aadhaar^
ङ- राष्ट्राय जनसंख्या राजस्टर पत्र		F-आधार होने व	
L A N D M A R	K		C T Y / T O W N / V L L A G E
D I S T R I C	T P I N / P O S	T C O D E	S T A T E / U T C O D E
*Current address details *वर्तमान पते का विवरण			
	h cases address details as below need not to b	be provided)	
	मलों में नीचे दिया गया पते का विवरण उपलब्ध करा 		_
	🔲 B-Voter ID card ख-वोटर आईडी कार्ड		ıse □ D-NREGA Job Card सेंस घ-नरेगा जॉब कार्ड
☐ E- National Population Register le	tter		session of Aadhaar^
ङ- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र		F-आधार होने व	त प्रमाण^
L A N D M A R	K		C T Y / T O W N / V L A G E
D I S T R I C	T P I N / P O S	T C O D E	STATE/UTCODE
*Resident Status:	□ Resident □ PI		☐ Resident Country
*आवासीय स्थितिः *#Nationality:		ोआईओ oreign National	निवासी देश □ NRI
*#राष्ट्रीयता:		त्रेदेशी नागरिक	एनआरआई
देश कोड का उल्लेख करें) Tel. (off) दूरभाष (कार्यालय)	Tel. (Res)		ट्रीयता को भारतीय के अलावा अन्य को चुना जाता है। संपर्क विवरण: (कृपया बताए गए नंबर से पहले
*Email id			
*ईमेल आईडी	*Gender:	:	
		एम - पुरुष एफ b Title and nature of duties:	- महिला टी - ट्रांसजेंडर
(*It is mandatory to provide PAN N			
(*पैन नं./फ़ॉर्म 60 प्रदान करना अनिवार्य	है)		
*Bank Details:			
*बैंक विवरण:			
			Name of the Bank:
			वैंक का नाम:
शाखा का नाम:			खाते का प्रकार:
Account No:			IFSC Code:
खाता क्रमांक: *Proof of possession of Aadhaar inclu	ides Aadhaar Card, Aadhaar letter, e-Aadhaar,	m-Aadhaar and macked Aadh	IFSC कोड:
·	धार लेटर, ई-आधार, एम-आधार और मास्क्ड आधार		aai
Relationship with Assignor/ Trans	feror		
समनुदेशक/हस्तांतरणकर्ता से संबंध	<u></u>		
Immediate Family Member:	□ Father □ M	lother	
निकट पारिवारिक सदस्यः		ाता पति/प	
Institutional Legal Entity: संस्थागत विधिक निकायः		UF/ Member of HUF चयूएफ/एचयूएफ का सदस्य	□ Lender/ Borrower □ Society ऋणकर्ता/उधारकर्ता समिति
	☐ Trust Other	rs	
Is the assignee:	^ _	dvisor Specified Person (SP)	☐ Relative of Employee/ Advisor/ SP
Is the assignee: क्या समनुदेशिती हैः	' .'	avisor Specified Person (SP) लाहकार/ विशिष्ट व्यक्ति (एसपी)	 Relative of Employee/ Advisor/ SP कर्मचारी/सलाहकार/एसपी का रिश्तेदार
	□ PNB □ No	. ,	
	पीएनबी को	ोई नहीं	

arising out o	<u>Name of the A</u> nderstand and accept the	at my request shall be	processed in accordance with the	terms and conditions of	rms and conditions, instructions/notic the policy and that I shall be solely r ice that I have assigned the above po	esponsible for all the consequences
मैं/हम <u>(</u>	समनुदेशिती व	हा नाम) एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमने पॉ	लिसी के समस्त नियमों एवं श	शर्तों, इस अनुरोध पर लागू निर्देशों/नोटिसों व	को पढ़ और समझ लिया है। मैं इसे समझता
और स्वीकार व	करता/करती हूँ कि मेरा अनुरोध्	ग्र पॉलिसी के नियमों एवं श	र्तों के अनुसार संसाधित किया जाएगा और	र इस अनुरोध से उत्पन्न समस्त	त परिणामों के लिए मैं ही पूर्णतया जिम्मेदार र	रहूँगा/रहूँगी, जिनमें इसमें निहित कोई गलत
या अपूर्ण सूचन	ग शामिल है। मैं एतद्द्वारा आ	पको नोटिस देता/देती हूँ कि	मैंने उक्त पॉलिसी, निर्धारण के नोटिस में	उल्लेखित विवरणों के अनुसार	र निर्धारित की है।	
Kindly retur	n the policy document to	the above assignee af	ter endorsing the assignment.			
कृपया निर्धारण	ग के पृष्ठांकन के पश्चात पॉलिस	ी दस्तावेज़ उक्त समनुदेशिर्त	ी को वापस कर दें।			
Date:		Signatur	re of Assignor:		Signature of Assignee:	
दिनांक:		समनुदेशव	क के हस्ताक्षर:		समनुदेशिती के हस्ताक्षर:	
Place:						
स्थान:						
	Declaration: To be filled	in case policyholder's s	signatures is in the form of a thumb बाएं अंगूठा) या स्थानीय भाषा के रूप में ह	impression (left thumb)) or in a vernacular language:	
Applicant/P	olicyholder and the rep	lies have been recorde		in lar	age understood by him/her. The same nguage. I have recorded the replies /her.	
मैं एतद्द्वारा घ	योषित करता/करती हूँ कि मैंं	ने आवेदन की विषयवस्तु अ	गवेदक/पॉलिसी स्वामी को उसे समझ में	आने वाली भाषा में पूरी तर	ह समझा दी है। उसे आवेदक/पॉलिसी स्वार्म	ो द्वारा पूरी तरह समझ लिया गया है और
आवेदक/पॉलिस	नी स्वामी द्वारा दिए गए उत्तर	ξ	भाषा में रिकार्ड किए गए हैं। मैंने आवेद	क/पॉलिसी स्वामी द्वारा दी ग	ाई सूचना/निर्देशों के अनुसार उत्तर रिकार्ड कि [।]	ए हैं और उसे उत्तर पढ़कर सुना दिए गए हैं,
उसके द्वारा पूर्र	ो तरह समझ लिए गए हैं और	पुष्टि कर दी गई है।				
Name of De	clarant:					
घोषणाकर्ता क	ा नाम:					
Date: DD-M	M-YYYY	Place:		Signature:		
दिनांक: DD-N	1M-YYYY	स्थान:		हस्ताक्षर:		
Witness Det गवाह के विवर						
Full Name o	f the Witness:					
गवाह का पूरा	नाम:					
Address of t	he Witness:					
गवाह का पता	:					
हस्ताक्षर:						
Date: Place:						
दिनांक: स्थान						
	Conditions 'Assignor' stands for the	current policyholder w	rho intends to assign the policy and नेधारित करना चाहता है तथा 'समनुदेशित	l 'Assignee' stands for th	e person in whose favour the policy is	s to be assigned;

- In case the Assignee is a Tax Resident of a country other than India, the FATCA / CRS Questionnaire should be submitted; यदि समनुदेशिती भारत के अलावा किसी अन्य देश का कर निवासी है तो एफ़एसीटीए /सीआरएस प्रश्नावली जमा की जानी चाहिए;
- In case the Assignee is a minor, the legal/natural guardian of the minor shall sign on behalf of the minor; यदि समनुदेशिती एक अवयस्क है तो अवयस्क का वैधानिक/प्राकृतिक संरक्षक अवयस्क की ओर से हस्ताक्षर करेगा;
- The Surrender and Cash Withdrawals (wherever applicable) would be admissible after the minor attains the majority; अभ्यर्पण और नकद आहरण (जहां लागू हो) अवयस्क के परिपक्ष हो जाने पर ही अनुमन्य होगा;
- PMLI may reject the request for endorsement of Assignment in accordance with the Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended from time to time, giving reasons for such rejection. The policyholder may approach Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI) within 30 days of the receipt of notice of such rejection; पीएमएलआई, समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अनुरूप निर्धारण के पृष्ठांकन हेतु अनुरोध को अस्वीकृत करने का कारण बताते हुए अस्वीकृत कर सकता है। ऐसी अस्वीकृति का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात 30 दिनों के अंदर पॉलिसी स्वामी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से संपर्क कर सकता है;
- If the policy is assigned to a lender to secure a loan, then the policy shall stand conditionally assigned to the lender till such time the loan, as secured by this policy, is repaid. The lender may surrender/foreclose the policy in case of any non-repayment or NPA by the assignor;
 यदि पॉलिसी कोई ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणदाता को निर्धारित की गई है तो ऋणदाता को इस पॉलिसी द्वारा सुरक्षित ऋण चुकता किए जाने के समय तक के लिए पॉलिसी सशर्त निर्धारित की जाएगी। समनुदेशक द्वारा कोई गैर-पुनर्भुगतान या एनपीए की स्थिति में ऋणदाता पॉलिसी को अभ्यर्पित/समयपूर्व समाप्त कर सकता है;
- The Assignor with suitable concurrence from the Assignee/lender shall intimate PMLI about its loan closure for suitable re-assignment of the policy to the Assignor; समनुदेशिती/ऋणदाता से उपयुक्त समन्वय के साथ समनुदेशक, समनुदेशक को पॉलिसी के उपयुक्त पुनः-निर्धारण हेतु अपने ऋण समापन के बारे में पीएमएलआई को सूचित करेगा;
- Re-assignment of your policy shall be made by a separate instrument and confirmation provided herein by Assignor and Assignee shall be considered as a consent to make the re-assignment;

आपकी पॉलिसी का पुनः-निर्धारण एक पृथक इन्स्ट्रूमेंट द्वारा किया जाएगा और समनुदेशक व समनुदेशिती द्वारा प्रदान की गई पुष्टि पुनः-निर्धारण करने हेतु सहमति मानी जाएगी;

- In case of Assignment, please ensure that a fresh nomination is registered by the assignee by submitting a fresh nomination form, as the original nomination gets automatically cancelled by virtue of Assignment;
 - निर्धारण की स्थिति में, कृपया सुनिश्चित करें कि एक नया नामांकन फ़ॉर्म जमा करते हुए समनुदेशिती द्वारा एक नया नामांकन पंजीकृत कराया जाए, क्योंकि मूल नामांकन निर्धारण के कारण स्वतः निरस्त हो जाएगा;
- In case of re-assignment, if no new nomination is given, nominee details as available in PMLI records would be considered;
 - निर्धारण की स्थिति में, यदि नया नामांकन नहीं दिया जाता है तो पीएमएलआई के रिकार्ड में उपलब्ध नामांकन विकल्पों पर विचार किया जाएगा;
- In case premium is being paid by assignee, existing Direct Debit/ ACH active (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he/she need to provide fresh Direct Debit registration request यदि प्रीमियम का भुगतान हस्तांतरिती द्वारा किया जा रहा है, तो मौजूदा सक्रिय डायरेक्ट डेबिट/एसीएच (ACH) (यदि कोई हो) रद्द हो जाएगा। अगर हस्तांतरिती चाहता है कि प्रीमियम को डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से
- काटा जाए, तो उसे नया डायरेक्ट डेबिट पंजीकरण अनुरोध देने की आवश्यकता होगी

 Any matter written in vernacular should have the English translation written beneath the same and attested in the manner given above; स्थानीय भाषा में लिखी किसी सामग्री का अंग्रेजी अनुवाद उसके नीचे लिखा जाए और उक्त विधि से प्रमाणित किया जाए;
- The Company expresses no opinion as to the legality or validity of the assignment;
 - निर्धारण की वैधानिकता या वैधता के संबंध में कंपनी कोई राय नहीं व्यक्त करती है;
- In case the request for assignment/ reassignment is received via email/other digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa; यदि असाइनमेंट/रीअसाइनमेंट का अनुरोध ईमेल/अन्य डिजिटल मोड के जरिए प्राप्त होता है, तो असाइनर द्वारा पॉलिसी दस्तावेज असाइनी को सौंपा जाएगा और असाइनी द्वारा पॉलिसी दस्तावेज असाइनर को सौंपा जाएगा;
- Policy servicing charges may be levied as applicable.
 पॉलिसी सर्विसिंग प्रभार लगाए जा सकते हैं, जैसा लागू हों।

Assignee Declaration

वारिस (असाइनी) की घोषणा

I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief and I undertake to inform you any of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am aware that I may be held liable for it. I hereby consent to receiving information from CKYC Registry through SMS/ Email on the above.

मैं एतद द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सच और सही हैं और मैं आपको इसमें किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत सूचित करने का वचन देता हूं। यदि उपरोक्त जानकारी में से कोई भी जानकारी गलत या असत्य या भ्रामक या गलत तरीके से प्रस्तुत की गई पाई जाती है, तो मुझे पता है कि इसके लिए मुझे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मैं एतद द्वारा इस संबंध में सीकेवाईसी रजिस्ट्री से एसएमएस / ईमेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की सहमति देता हूं।

Date:	Signature of Assignor:			Signature of Assignee:		
दिनांकः	समनुदेशक के हस्ताक्षर:					
Place:				•		
स्थान:						
To be filled by Branch Services – Mandatory						
शाखा सेवा द्वारा भरा जाएगा- अनिवार्य						
Request received from Customer	☐ Customer Representa	ative 🗆 Bank	☐ Courier			
निम्न से प्राप्त अनुरोध ग्राहक	ग्राहक प्रतिनिधि	बैंक	कुरियर			
Form Received By: Employee Name:		Employee ID:		Employee Signature:		
इनके द्वारा फ़ॉर्म प्राप्त किया गया: कर्मचारी का नाम	т:	कर्मचारी आईडी:		कर्मचारी के हस्ताक्षर:		
Request Received date at Branch: DD-MM-Y		Request received Time a		`		1
शाखा में अनुरोध प्राप्त होने का दिनांक: DD-MM-Y		शाखा में अनुरोध प्राप्त होने व			Branch Seal	
					शाखा स्टाम्प	
		⊸}<		⊸		
		Acknowledgem	ont Clin			
		<u> अभिस्वीकृति</u>				
Basical a samuat fac		-				
Received a request for						
निम्न पॉलिसी संख्या के लिए			·			
On						
शामिल है						
Received By: Employee Code	En	nployee Name				
<u>निम्न द्वारा प्राप्तः</u> कर्मचारी कोड	कर	चिारी का नाम				

Registered office: Unit No. 701, 702 & 703, 7th Floor, West Wing, Raheja Towers, 26/27 M G Road, Bangalore -560001, Karnataka. IRDA of India Registration number 117. CI No. U66010KA2001PLC028883, call us Toll-free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor, Techniplex -1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai – 400062. Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं. 701, 702 और 703, सातवां तल, वेस्ट विंग, रहेजा टावर्स, 26/27 एम. जी. रोड, बंगलुरू -560001, कर्नाटक। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण पंजीयन क्रमांक 117। CI No. U66010KA2001PLC028883, हमें 1-800-425-6969 पर नि: शुल्क कॉल करें, वेबसाइट: www.pnbmetlife.com, ईकेल: indiaservice@pnbmetlife.co.in या हमें यहां लिखें पहला तल, टेक्निप्लेक्स-1, टेक्निप्लेक्स कॉम्प्लेक्स, वीर सावरकर फ़्लायओवर के पीछे, गोरेगांव (पश्चिम), मुम्बई – 400062। फोन: +91-22-41790000, फैक्स: +91-22-41790203

शाखा स्टाम्प